



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 196) पटना, बृहस्पतिवार, 10 मई 2012

सं0 एल/एच0जी0-1560/2001-4394

गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

9 मई 2012

विषय:- बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत गुल्म समादेशक (Company Commander) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता (शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच/माप) निर्धारित करने के संबंध में।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता (शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच/माप) निर्धारित करने से संबंधित मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि गुल्म समादेशक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी का पद अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस के समकक्ष है अतः उक्त पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता (शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच/माप) वही होगी जो अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस हेतु निर्धारित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 196-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>